



1-नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करने का आरोपी गिरफ्तार, थाना पाकबड़ा:-

अवगत कराना है कि दिनांक 26-09-2022 को वादी श्री पुष्कर पुत्र स्व० श्री रामकिशोर निवासी मानसरोवर शिव विहार कालोनी, थाना मझोला, मुरादाबाद ने अभियुक्त द्वारा पोस्ट ऑफिस में सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी कर 04 लाख रुपये लेने के सम्बन्ध में थाना पाकबड़ा पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना पाकबड़ा पर मु०अ०सं० 289/2022 धारा 420/406/467/468/471 भा०द०वि० पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में दिनांक 31.10.2022 की रात्रि को उ०नि० श्री कृष्ण कुमार थाना पाकबड़ा द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी पाकबड़ा, निकट पुराना डाकघर, थाना पाकबड़ा, मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

2-दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार, थाना भोजपुर:-

अवगत कराना है कि दिनांक 31-10-2022 को वादी निवासी थाना भोजपुर क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग बेटी को जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में थाना भोजपुर पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर पर मु०अ०सं० 372/2022 धारा 376ठ/506 भा०द०वि० व 5ट/6 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 01-11-2022 को उ०नि० श्री विपिन कुमार थाना भोजपुर, मुरादाबाद द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्त जाहिद पुत्र नूर हसन निवासी ग्राम हमीरपुर थाना भोजपुर, मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

3-घर में घुसकर चोरी करने का 01 आरोपी गिरफ्तार, थाना कांठ:-

अवगत कराना है कि दिनांक 30-10-2022 को वादी श्री सदाकत हुसैन पुत्र शौकत हुसैन निवासी मौ० आबिदपुरा कस्बा उमरी कला थाना कांठ, मुरादाबाद ने अभियुक्तगण द्वारा वादी की दुकान का दरवाजा तोड़कर रूपये चोरी करने व पुस्तको में आग लगाने के सम्बन्ध में थाना कांठ पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना कांठ पर मु०अ०सं० 399/2022 धारा 457/380/436 भा०द०वि० पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 01-11-2022 को उ०नि० श्री ललित चौधरी थाना कांठ द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्त अय्यूब पुत्र रियासत निवासी मौ० अन्सारियान कस्बा उमरी कला थाना कांठ, मुरादाबाद को चोरी के 1,000/- रुपये सहित गिरफ्तार किया व एक बाल अपचारी को चोरी के 1000/- रुपये के साथ नियमानुसार निगरानी में लिया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी।

4- दहेज की मांग कर हत्या करने का आरोपी गिरफ्तार, थाना पाकबड़ा:-

अवगत कराना है कि दिनांक 31-10-2022 को वादी निवासी अमरोहा ने अभियुक्तगण द्वारा वादी की पुत्रियों को दहेज की मांग कर प्रताड़ित करने, गाली गलौच, मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने व एक पुत्री की हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना पाकबड़ा पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना पाकबड़ा पर मु०अ०सं०- 327/2022 धारा- 498ए/304बी /323/504/506 भादवि व धारा 3/4 दहेज अधिनियम पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 01-11-2022 को उ०नि० श्री संजय त्यागी थाना पाकबड़ा द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्त राजवीर पुत्र राजपाल निवासी ग्राम पाठ वाली मढैया मिलक थाना पाकबड़ा, मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

5-स्कूटी चोर गिरफ्तार, थाना कोतवाली नगर:-

अवगत कराना है कि दिनांक 10-10-2022 को वादी मेहन्दी हसन पुत्र नसीम अहमद निवासी फैजगंज घेर सैद खाँ थाना मुगलपुरा, मुरादाबाद ने अज्ञात चोर द्वारा वादी की स्कूटी एक्टिवा रजिस्ट्रेशन नं० UP21BA-0204 को चोरी करने के संबंध में थाना कोतवाली नगर पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु०अ०सं० 166/2022 धारा 379 भा०द०वि० पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 01-11-2022 को उ०नि० श्री अर्जुन सिंह थाना कोतवाली नगर द्वारा मय हमराही पुलिस बल के प्रकाश में आये अभियुक्त आरिफ खान उर्फ खान पुत्र खुर्शीद निवासी सैसपुर थाना स्योहारा, बिजनौर को स्कूटी एक्टिवा रजिस्ट्रेशन नं० UP21BA-0204 सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भा०द०वि० की वृद्धि की गयी।